

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

अधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



[1]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2001/पू० 21, 1922

[18]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2001/AUSA 21, 1922

संसार मंत्रालय

(डब्ल्यू पी सी बिल्डिंग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2001

सा.का. नि. 18(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 15) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तार संचालिका अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट (अनुज्ञापन अपेक्षाओं से छूट) नियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट (अनुज्ञापन अपेक्षाओं से छूट) संशोधन नियम, 2001 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रेडियो, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डर सेट (अनुज्ञापन अपेक्षाओं से छूट) नियम, 1997 में,—
 - (i) नियम 3 के खंड (ii) में,—
 - (क) “क्रियाशील उपग्रह से सीधे” शब्द के पश्चात् “दूरदर्शन और वीडियो कैसेट रिकार्डरों में दूरदर्शन संकेतों के माध्यम से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - (ख) “4800 मेगा हर्ट्ज से कम के आवर्ती बैंडों में” शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (ii) नियम 4 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. आर-11014/7/97-एल आर]

आर.जे.एस. कुशवाहा, उप बेतार सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 393(अ), तारीख 16 जुलाई, 1997 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(WPC Wing)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th January, 2001

G.S.R. 18(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Radio, Television and Video Cassette Recorder Sets (Exemption from Licensing Requirements) Rules, 1997, namely :—

1. (1) These rules may be called the Radio, Television and Video Cassette Recorder Sets (Exemption from Licensing Requirements) Amendment Rules, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. - In the Radio, Television and Video Cassette Recorder Sets (Exemption from Licensing Requirements) Rules, 1997,—
 - (i) In rule 3, in clause (ii),—
 - (a) after the words “transient images of fixed and moving objects”, the words “by means of television signals in television and video cassette recorder sets” shall be inserted;
 - (b) the words, figures and letters “in frequency bands below 4800 MHz” shall be omitted;
 - (ii) rule 4 shall be omitted.

[F. No. R-11014/7/97-LR]

R.J.S. KUSHVAHA, Dy. Wireless Adviser

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R 393(E), dated the 16th July, 1997.